

लॉकडाउन और स्वास्थ्य आपातकाल मे बीस मुख्य बातें

1. जिला और राज्य स्थिति / 'युद्ध' कक्ष को मज़बूत करना: उन्हें आवश्यक सेवाओं को चालू रखने और बहाली के लिए तैयार करने के लिए संबन्धित विभागों के प्रमुख कर्मियों के साथ स्टाफ देना। हॉट स्पॉट और अड़चनों को ट्रैक करने के लिए GIS और विश्लेषणात्मक क्षमता स्थापित करना, सोशल और प्रसारण मीडिया के लिए आपातकालीन संचार क्षमता स्थापित करना। नागरिक, हितधारक और फ्रंटलाइन स्टाफ से प्रश्नों का जवाब देने और अड़चनों की पहचान करने के लिए समर्थन हॉटलाइन और कॉल सेंटर से सूचना प्रवाह को सक्षम करना।
2. स्वास्थ्य प्रणालियों, आपातकालीन सेवाओं और फार्मा एवं मेडिकल सप्लाइ चैन का विस्तार करना: और यह प्रासंगिक सलाह और अच्छी प्रथाओं के अनुसार करना। *अलग मार्गदर्शन और विशिष्ट कार्यों की आवश्यकता है जो यहाँ नहीं दिये गए हैं।*
3. सुरक्षित राज्यव्यापी ICT अवसंरचना और कामकाजी सेवाएं सुनिश्चित करना: फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी नागरिकों के लिए संपर्क सक्षम करने के लिए, और राज्य तथा स्थानीय प्रशासन के साथ एक खुला और पारदर्शी इंटरफ़ेस बनाना। निजी क्षेत्र के समर्थन के साथ संकटग्रस्त, अत्यधिक संवेदनशील और विशेष समूहों (जैसे प्रवासियों) में नागरिकों को जवाब देने के लिए हेल्पलाइन स्थापित करना ।
4. बैंकिंग, डाकघर, एटीएम और पूंजी सेवाओं को मज़बूत करना: जो प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, बढ़ी हुई पेंशन आदि की डिलीवरी और आवश्यक सेवाओं और सरकारी कामकाज को चालू रखने के लिए ज़रूरी हैं। यदि नकद आपूर्ति कम होने की सूचना है, तो स्थानीय नकद आपूर्ति को फिर से भरने पर विचार करना, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है ।
5. राशन और सार्वजनिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तार करना: यह सेवा के रूप में समर्थन (जैसे भोजन, नागरिक आपूर्ति, मिट्टी का तेल और एलपीजी) के वितरण के लिए आवश्यक है, इसमें स्टॉक ट्रैकिंग करना, दैनिक आवागमन को सक्षम करना, और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की रक्षा करना और उनका समर्थन करना शामिल है, जो इन प्रणालियों को चालू रखते हैं। आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों, अस्पतालों और महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और बुजुर्गों, कमज़ोर और दूरस्थ आबादी के लिए आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष देखभाल।
6. आपातकालीन यात्री निकासी / परिवहन: सड़क और संभवतः रेल द्वारा, पर्याप्त प्रवासीकरण और आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य जांच, दवा या संगरोध (क्वारिंटाइन) के प्रावधान के साथ, लाखों प्रवासी श्रमिकों की ज़रूरतों और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, शोक/दुख आदि की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए।
7. बिजली की आपूर्ति स्थिर बनाए रखना: लॉकडाउन के दौरान निर्बाध आवासीय और कृषि बिजली सुनिश्चित करने के लिए वितरण के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना और लॉकडाउन के पश्चात तेजी से बहाली करना।
8. ईंधन की स्थिर आपूर्ति बनाए रखना: और माल परिवहन, आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को बनाए रखने के लिए (डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी के) उपयुक्त स्टॉक; महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए बैकअप या कैप्टिव बिजली की आपूर्ति (जैसे मोबाइल टॉवर, टेलीकॉम सिस्टम और डेटा सेंटर, अस्पताल); महत्वपूर्ण विनिर्माण सुविधाओं, गोदामों और कोल्ड चैन, कृषि और संबद्ध गतिविधि, और लॉकडाउन के पश्चात सार्वजनिक तथा निजी यात्री मांग में वृद्धि के लिए तैयारी करना।
9. माल परिवहन को बनाए रखना और उसका विस्तार करना: रेल, सड़क और वायु द्वारा, राज्य के अंदर (इंट्रास्टेट) और राज्यों के बीच (इंटरस्टेट) भोजन और आवश्यक आपूर्तियों, सतत प्रक्रिया और रणनीतिक उत्पादन इकाइयों को बनाए

रखने के लिए और लॉकडाउन के पश्चात तेजी से बहाली करने के लिए। रबी फसल का समर्थन करने के लिए स्थानीय छूट आवश्यक हो सकती है।

10. गोदामों और कोल्ड चेन सेवाओं को बनाए रखना: पीडीएस और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था का समर्थन करने के लिए। यह कार्य आपूर्ति और कामकाज के पर्याप्त स्टॉक, सार्वजनिक, निजी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा, सुविधाओं की सुरक्षा और पर्याप्त बिजली, पानी की आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को ट्रैक और सुनिश्चित करने के द्वारा किया जा सकता है।
11. आवश्यक सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना: जीवनरक्षक मूलभूत सेवाओं और वितरण और खुदरा श्रृंखलाओं में अनौपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्र की व्यवस्था में बाधाओं को संबोधित करना। प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत करना और लॉकडाउन की स्थिति के एक चरणबद्ध छूट को सक्षम करना।
12. जल आपूर्ति सेवाओं को स्थिर बनाए रखना: ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घनी परिस्थितियों में बंद बड़ी आबादी के साथ, पानी से संबंधित बीमारियों के जोखिम को सीमित किया जा सके। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन-आधारित या टैंकर की नियमित आपूर्ति। जहाँ आपूर्ति भूजल को पंप से निकालने करने पर निर्भर करती है, वहाँ स्थिर बिजली बने रखना।
13. स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट सेवाओं को स्थिर बनाए रखना: विशेष रूप से लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों के साथ स्वच्छता की स्थिति बनाए रखना। COVID-19 के संपर्क में आने के जोखिम वाले फ्रंटलाइन सफ़ाई और ठोस अपशिष्ट श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा करना।
14. कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों को समर्थन देना: अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली अपेक्षित बम्पर रबी फसल का समर्थन करना, जिसमें पर्याप्त स्क्रीनिंग और सुरक्षा, कृषि उपकरण और कृषि आपूर्ति के साथ कृषि श्रमिकों के आवागमन में छूट शामिल है।
15. सिंचाई सेवाओं को बनाए रखना: सब्जियों और फलों की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए, गर्मियों की फसलों की बुवाई की रक्षा करना और लॉकडाउन के पश्चात तेजी से सेवा बहाली करना।
16. आवश्यक सामग्री का उत्पादन बढ़ाना: जैसे दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति, भोजन, पका हुआ भोजन, घरेलू आपूर्ति, राज्य के अंदर ईंधन की पुनः आपूर्ति, या वैकल्पिक अंतर-राज्य व्यवस्था करना।
17. श्रमिकों और उनकी आजीविका को सुरक्षित रखना: विशेष रूप से प्रवासियों और अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को। सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का एकत्रीकरण और वितरण करना। कानून और व्यवस्था, प्रशासनिक, जीवनरक्षक बुनियादी ढांचे और आवश्यक आपूर्ति कार्यों को बनाए रखने वाले अन्य नजदीकी-फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा और प्रशिक्षण के उपाय करना।
18. प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करना।
19. कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों को संबोधित करना: जैसे कि बेघर लोग, बुजुर्ग, कैदी, मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्ति।
20. उभरती भूख और कुपोषण संकट को संबोधित करना: और इसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर और रुग्णता, विशेष रूप से गरीब, कमज़ोर, अल्पपोषित बच्चों और महिलाओं के बीच प्रभाव को संबोधित करना।